



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19-जून 25, 2004 (ज्येष्ठ 29, 1926)  
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19--JUNE 25, 2004 (JYAISTHA 29, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग IV [PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएँ  
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

#### नाम परिवर्तन

मैं, अब तक बरसाती के नाम से ज्ञात, सुपुत्र श्री बुद्ध दास कार्यालय : ओ० एफ० आई० सी० अरमापुर, कानपुर में टी० जी० टी० पद पर कार्यरत, निवासां वर्तमान पता : एन० टी०/3/371 मंत्रीनगर, अरमापुर, कानपुर-9 (उ० प्र०) ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम डा० बरसाती लाल होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बारे में अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है।

बरसाती

[हस्ताक्षर (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार)]

मैं, अब तक अंजु सिंह चौहान के नाम से ज्ञात सुपुत्र श्री लच्छी राम कार्यालय 15वीं बाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस टिगडो केम्प, नई दिल्ली हेडक्वार्टर/आर० ओ० के पद पर कार्यरत, निवासी वर्तमान पता : ग्राम-मलैया, पो०ओ०-

1-120 GI/2004

दातू, जिला-देहरादून, उत्तरांचल ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम अर्जुन राठीर होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बारे में अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है।

अंजु सिंह चौहान

[हस्ताक्षर (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार)]

#### NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication

## CHANGE OF NAMES

I, hitherto known as BIRENDER SINGH son of Shri CHHATTAR SINGH JARRIAAL employed as Junior Assistant (Accounts) in the National Thermal Power Corporation (Govt. Undertaking) residing at A-2, NTPC Colony, Sector-33 Noida have changed my name and shall hereafter be known as BERRENDER JARIAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIRENDER SINGH

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DAIYAT KULKARNI son of Shri MALHAR KULKARNI employed as Full Time Casual Labour, Railway Mail Service, Hubli in the Railway Mail Service, Hubli Division, Belgaum residing at Athleye Building, Shastri Nagar Belgaum have changed my name and shall hereafter be known as DAIYAT MALHAR ACHARYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DAIYAT KULKARNI

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRI BIJOY KANTA son of KALU KANTA, employed as Helper Grade-I in the SSE/Tele/NJP, N.F. Rly., residing at P.O. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri (W.B.) have changed my name and shall hereafter be known as SRI BIJOY KANTA ROY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRI BIJOY KANTA

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VISHWANATH SINGH S/o Late PRASAD BAITHA employed as MTDVR in the Border Road Organisation residing at 1072 Field Wksp. (GREF), BRO Complex, Gadchiroli, Maharashtra-442605 have changed my name and shall hereafter be known as VISHWANATH BAITHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VISHWANATH SINGH

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NARSAMMA L. RATHOD wife of Shri LAXMAN RATHOD employed as Constable (Mahila) in 88 (M) Bn. CRPF residing at D Block Vikaspuri Police Line New Delhi-18 have changed my name and shall hereafter be known as MAMTA RATHOD..

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARSAMMA L. RATHOD

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHINTU BHATT, son of Shri L. N BHATT, employed as Travel Assistant in the International Travel House Limited residing at (address) Plot No. 8, Manglapuri Phase-I, New Delhi-110045, have changed my name and shall hereafter be known as TUSHAR BHATT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHINTU BHATT

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as P. MUTHAIYAN son of PERIYASAMY employed as Conservator of Forests in the Tamilnadu Forest Department, Tamilnadu and now working as Conservator of Forests, Virudhunagar, residing at 5/227, Nehru street, N.G.O. Colony, Madurai Road, Virudhunagar have changed my name and shall hereafter be known as P. RAJA MUTHAIYAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

P. MUTHAIYAN

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIJAY KUMAR SRIKRISHNA HAGAWANE S/o Sb. SRIKRISHNA HAGAWANE employed as Durwan in the Ministry of Defence, Ordnance Factory Ambarnath-421502 residing at J-64/1, Ordnance Estate, Ambarnath-421502 have changed my name and shall hereafter be known as VIJAY KUMAR SRIKRISHNA AGAWANE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY KUMAR SRIKRISHNA HAGAWANE

[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as N. PHRAME KUMAR S/o Sh. R. NANJAN employed as Chargeman in the Cordite Factory Aruvankadu, Ministry of Defence Government of India residing at 438/2, Yellow Type Qtrs, Cordite Factory Estate, Aruvankadu, The Nilgiris, Dist. Tamilnadu Pin-643202 have changed my name and shall hereafter be known as N. PREM KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

N. PHRAME KUMAR

(Signature (in existing old name))

I, JC-642796A Nb Sub BIJAY KUMAR PATTANAIK son of Late R. K. PATTANAIK employed as JCO in the 411 pet P1 ASC C/o 56 APO residing at Vill-Bhapur, P.O. Bhapur, Teh-Dhenkanal, Distt. Dhenkanal, State Orisa, Pin-759015 have changed the name of minor son SOMAN KUMAR PATTANAIK aged 05 years 06 months and he shall hereafter be known as ANSUMAN PATTANAIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIJAY KUMAR PATTANAIK

(Signature of Guardian)

I, hitherto known as KALU BAHADUR son of Late SANTA BAHADUR GHOLE employed as Garden Attendant, Indian Botanic Garden, Botanical Survey of India, Howrah-711103, residing at Vill. Thanamakua, P.O. D.S. Lane, Howrah-711109 have changed my name and shall hereafter be known as KALU GHALE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KALU BAHADUR

(Signature (in existing old name))

I, hitherto known as Shri VITTAL son of Shri SATHYANARAYANA employed as Tradesman-C, Operation Section, in the Nuclear Power Corporation of India Limited, (A Govt. of India Enterprise), Kaiga Generating Station residing at E/VII/North, Kaiga Township, Mallapur-Karwar, Uttarkannada District, Karnataka-581400 have changed my name and shall hereafter be known as Shri VITTAL K.S.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VITAL

(Signature (in existing old name))

I, hitherto known as JITENDER KUMAR JOHN, son of late Shri ASHOK KUMAR JOHN, employed as Sales Executive in the Sar Adventure Tourism & Holidays Pvt. Ltd., residing at 749, Najaina Village, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as JITEN MEHTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JITENDER KUMAR JOHN

(Signature (in existing old name))

I, hitherto known as BHARTI daughter of Sh. JAGAT SINGH residing at B-150, Khajuri Colony, Delhi-110094 have changed my name and shall hereafter be known as BHARTI ARYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHARTI

(Signature (in existing old name))

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लाक जी,  
बांद्रा-कुर्ली काम्पलेक्स, बांद्रा (पश्चिम)  
मुम्बई-400051

एक्सचेंज के उप-नियमों में निहित उपबंधों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

1. अध्याय- XI के उप-नियम 3 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है :

उद्धरण चिन्ह शुरू

स्पष्टीकरण :—

- (1) ऐसे मामले जिनमें दावा, अंतर अथवा विवाद की तिथि निश्चय न हो, उनमें लेन-देन की तिथि, जिस संबंध में दावा, अंतर अथवा विवाद उठा है, से छह महीने की समाप्ति की तारीख को उठा माना जाएगा।
- (2) ऐसे मामलों जिनमें उप-नियम के अध्याय III के उप-नियम 1घ से उठने वाले दावे, अंतर अथवा विवाद

की तिथि निश्चय नहीं है, उनमें इसे निम्नानुसार उठा हुआ माना जायेगा :

(क) ऐसे मामलों जिनमें जारीकर्ता घटक को शेयरों के अंतरण को सम्प्रेषित नहीं करता, उनमें विवाद की तिथि को जारीकर्ता के पास अंतरण के लिए घटक द्वारा शेयरों को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख को उठा माना जायेगा, अथवा

(ख) ऐसे मामलों जिनमें जारीकर्ता शेयरों के अंतरण को मना करता है, उनमें विवाद की तिथि को घटक के पक्ष में शेयरों के अंतरण को मना करते हुए जारीकर्ता के सम्प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से छह महीनों की समाप्ति की तारीख को उठा माना जायेगा ।

(ग) ऐसे मामलों जिनमें जारीकर्ता घटक के शेयरों के अंतरण में निर्धारित अवधि से परे देरी करता है, उनमें विवाद की तिथि को जारीकर्ता के पास अंतरण के लिए घटक द्वारा शेयरों को प्रस्तुत करने की तारीख से अथवा घटक के पक्ष में शेयरों के अंतरण की सूचना देते हुए घटक को जारीकर्ता के सम्प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समाप्ति की तिथि से छह महीने की समाप्ति की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, को उठा माना जायेगा ।

उद्धरण चिन्ह बन्द

2. अध्याय X के मौजूदा उप-नियम 5(ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

“में बन्द कर सकता है” शब्दों और “और किया गया कोई व्यय अथवा कोई हानि” शब्दों के बीच आने वाले “खुले बाजार” शब्दों को “संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट ढंग से” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड

जे० रविचन्द्रन,

निदेशक (वित्त एवं लेखा) और कम्पनी सचिव

टिप्पणी : अंग्रेजी पाठ और हिन्दी पाठ के बीच किसी असंगति के मामले में अंग्रेजी पाठ में दिए गए प्रावधान अभिभावी होंगे ।

National Stock Exchange of India Limited  
Regd. Office : Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai-400051

The provisions contained in the Byelaws of the Exchange are amended as under :

1. The following explanations is inserted in Bye-law 3 of Chapter XI :

## QUOTE

Explanation :—

(1) In cases where the date of claim, difference or dispute is not ascertainable, it shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of the transaction in respect of which the claim, difference or dispute has arisen.

(2) In cases where the date of claim, difference or dispute arising out of Bye-law 1D of Chapter XI of the Bye-laws is not ascertainable, it shall be deemed to have arisen as follows :

(a) In cases where the Issuer fails to communicate to the Constituent the transfer of shares, the date of dispute shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of expiry of 30 days from the date of lodgment of shares by the Constituent for transfer with the Issuer; or

(b) In cases where the Issuer refuses to transfer the shares, the date of dispute shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of receipt of communication of Issuer refusing to transfer the shares in favour of the Constituent.

(c) In cases where the Issuer delays the transfer of shares of the Constituent beyond the stipulated period, the date of dispute shall be deemed to have arisen on the date of expiry of six months from the date of expiry of 30 days from the date of lodgment of shares by the Constituent for transfer with the Issuer; or the date of receipt of communication of the Issuer to the Constituent intimating the transfer of shares in favour of the Constituent, whichever is later.

## UNQUOTE

2. The existing Bye-law 5 (b) of Chapter X is amended as under :

The words “open market” appearing in between the words “he may close-out in the” and the words “and any expense incurred or any loss” are substituted with the words “manner specified by the relevant authority”.

For National Stock Exchange of India Limited  
J. RAVICHANDRAN  
Director (F & L) &  
Company Secretary

FORM NO. 155

[See Rule 329]

Companies Act, 1956

Members' Voluntary Winding-up

Name of Company : SHRIRAM AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD.

Notice Convening Final Meeting

Notice is hereby given in pursuance of Section 497 that a General Meeting of the members of the above named Company will be held at 42B, 4th Floor, Himalaya House, 23 K. G. Marge, New Delhi-110001 on the 15th day of July, 2004 at 10.30 in the morning for the purpose of having an account laid before the company to dispose of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company, the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Dated the 7th day of June, 2004.

R. K. KAPOOR  
(Liquidator)

Form No. 155

[See Rule 329]

Companies Act, 1956

Members' Voluntary Winding-up

Name of Company : SHRIRAM AUTOMOTIVE EXPORTS PVT. LTD.

Notice convening final meeting

Notice is hereby given in pursuance of section 497 that a General meeting of the members of the above named company will be held at 42 B, 4th Floor, Himalaya House, 23 K. G. Marg, New Delhi-110001 on the 15th day of July, 2004 at 10

O'clock in the morning for the purpose of having an account laid before the company to dispose of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company, the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Dated the 7th day of June, 2004.

R. K. KAPOOR  
(Liquidator)

Form No. 155

[See Rule 329]

Companies Act, 1956

Members' Voluntary Winding-up

Name of Company : KUSH INVESTMENTS PVT. LTD.

Notice convening final meeting

Notice is hereby given in pursuance of section 497 that a General meeting of the members of the above named company will be held at 42B, 4th Floor, Himalaya House, 23 K. G. Marg, New Delhi-110001 on the 15th day of July, 2004 at 11.00 O'clock in the morning for the purpose of having an account laid before the company to dispose of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company, the manner in which the books, accounts documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Dated the 7th day of June, 2004.

R. K. Kapoor  
(Liquidator)